

संघीय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम और NYC मानव संसाधन प्रबंधन COVID-19 शव-दफन सहायता मृत्यु प्रमाणपत्र नेविगेशन प्रक्रिया

मैं संघीय आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (Federal Emergency Management Act, FEMA) COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता या NYC मानव संसाधन प्रबंधन (Human Resource Administration, HRA) COVID-19 शव-दफन सहायता कार्यक्रमों के लिए आवेदन कैसे करूँ?

- FEMA COVID-19 अंतिम संस्कार सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, [fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance](https://www.fema.gov/disasters/coronavirus/economic/funeral-assistance) पर जाएं।
- NYC HRA COVID-19 शव-दफन सहायता कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए, www1.nyc.gov/site/hra/help/burial-assistance.page पर जाएं।

मैं मृत्यु प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ जो NYC में मरने वाले किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण दिखाता है?

NYC स्वास्थ्य और मानसिक आरोग्यता विभाग (NYC स्वास्थ्य विभाग) NYC (ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, मैनहट्टन, क्वींस, और स्टेटन आइलैंड) में होने वाली मौतों के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करता है। चिकित्सा सुविधा द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु की रिपोर्ट करने और NYC स्वास्थ्य विभाग द्वारा मामला पंजीकृत करने के बाद मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध होते हैं।

अगर कोई फ्यूनरल होम (अंतिम संस्कार का स्थान) शामिल है, तो मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने का सबसे तेज़ तरीका अंतिम संस्कार का इंतज़ाम करने वाले फ्यूनरल डायरेक्टर से उसे ऑर्डर करना है। फ्यूनरल डायरेक्टर व्यक्ति की मृत्यु के बाद दो साल तक आपके लिए मृत्यु प्रमाणपत्र ऑर्डर कर सकता है।

अगर अभी तक कोई फ्यूनरल होम शामिल नहीं है या अगर आप फ्यूनरल डायरेक्टर से मृत्यु प्रमाणपत्र ऑर्डर नहीं कर सकते, तो आप [vitalchek.com](https://www.vitalchek.com) पर उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाणपत्र ऑर्डर करने के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए NYC स्वास्थ्य विभाग का [मृत्यु प्रमाणपत्र वेब पेज](#) देखें।

मृत्यु का कारण दिखाने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध करने का हकदार कौन है?

केवल मृतक के ये संबंधी मृत्यु प्रमाणपत्र और मृत्यु के कारण, दोनों के लिए अनुरोध कर सकते हैं: पति/पत्नी; घरेलू साथी; माता/पिता; बच्चा; भाई/बहन; दादा-दादी/नाना-नानी; पोता/पोती/नाती/नातिन; प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध किया गया सूचना देने वाला व्यक्ति; इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति

मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए शुल्क कितना है?

प्रत्येक प्रमाणित प्रतिलिपि की कीमत \$15 है। मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते समय अतिरिक्त शुल्क लागू होता है।

क्या मुझे मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलेगी?

हाँ। NYC स्वास्थ्य विभाग असल मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करेगा। NYC प्रमाणित मृत्यु प्रमाणपत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा फ़ीचर्स शामिल होते हैं कि प्रमाणपत्र प्रामाणिक है। अगर आप मृत्यु का कारण जानने के हकदार हैं (ऊपर देखें), तो आपको “गोपनीय मेडिकल रिपोर्ट” भी प्राप्त होगी जो मृत्यु का कारण दिखाती है। यह दस्तावेज़ मृतक का नाम, मृत्यु प्रमाणपत्र संख्या भी दिखाता है और बॉन्ड पेपर पर प्रिंट किया जाता है।

अगर मृत्यु प्रमाणपत्र पर मृत्यु का कारण नहीं लिखा गया है तो मैं मृत्यु के कारण के लिए कैसे अनुरोध करूँ?

कृपया मृत्यु प्रमाणपत्र ऑर्डर करते समय मृत्यु के कारण के लिए अनुरोध करें।

क्या मृत्यु के कारण के लिए कोई अलग शुल्क है?

नहीं। मृत्यु के कारण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है।

अगर मृत्यु का कारण “लंबित” दिखाता है तो मैं क्या करूँ?

अगर मृत्यु का कारण “लंबित” दिखाता है, तो आप असल मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख के बाद तीन महीने के भीतर मृत्यु प्रमाणपत्र बदल सकते हैं। मृत्यु प्रमाणपत्र पर बिल्कुल नीचे जारी करने की तारीख लिखी जाती है। आप मृत्यु का कारण दिखाने वाला नया मृत्यु प्रमाणपत्र ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो मृत्यु प्रमाणपत्र बदलने की तुलना में आपको जल्दी मिलेगा।

अगर व्यक्ति की मृत्यु COVID-19 की वजह से हुई थी तो मृत्यु प्रमाणपत्र यह क्यों दिखाता है कि मृत्यु का कारण प्राकृतिक था?

अप्रैल 2020 में, रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों ने यह निर्धारित किया था कि COVID-19 संक्रमण की वजह से मृत्यु होने की स्थिति में, मृत्यु का तरीका लगभग हमेशा प्राकृतिक होगा।

अगर मृत्यु का कारण COVID-19 नहीं दिखाता तो मैं क्या करूँ?

आपको पहले उस चिकित्सा पेशेवर या चिकित्सा सुविधा से संपर्क करना होगा जिसने प्राथमिक कारण या मृत्यु में योगदान देने वाले कारण के रूप में COVID-19 दिखाने के लिए मृत्यु के मौजूदा कारण को बदलने के बारे में जानकारी के लिए मृत्यु को प्रमाणित किया था। अगर आप प्रमाणपत्र में सूचीबद्ध किए गए सूचना देने वाले व्यक्ति या इंतज़ाम के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं तो आप मृत्यु के कारण में संशोधन करने के लिए NYC स्वास्थ्य विभाग में अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको क्या जमा करने की ज़रूरत होगी, इस बारे में निर्देशों के लिए NYC स्वास्थ्य विभाग के [प्रमाणपत्र में सुधार वेबपेज](#) पर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न “What is the process to correct a death certificate?” (मृत्यु प्रमाणपत्र को सही करने की प्रक्रिया क्या है?) में जाएं।

स्थिति में होने वाले बदलावों के साथ-साथ NYC स्वास्थ्य विभाग सिफ़ारिशों को बदल सकता है।

4.11.21